SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD.

REGD. / H.O.: 3rd FLOOR, HIMALAYA HOUSE, 23, KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI-110 001 (INDIA)



May 30, 2023

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400051

ISIN: INE526E01018

Company Symbol: SHRIPISTON

Sub: Public Notice (Newspaper Advertisement) before sending the Notice and Copies of Annual Report of 59th Annual General Meeting of the Company

Sir/ Madam

In the Board Meeting held on May 8, 2023, it was resolved that the 59th Annual General meeting of the Company be held on July 4, 2023 at 4:00 PM (IST) through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/OAVM).

In terms of the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), before sending the notice of 59th Annual General Meeting and copies of the Annual Report of the Company for 2022-23, the Company has given public notice by way of advertisement to Shareholders for updating their e-mail ids and Bank Account details with the Company/ RTA/ Depository Participants, on May 30, 2023 in following newspapers:

- Financial Express (English)
- Jansatta (Hindi)

Please find attached copy of newspaper advertisements.

This may be treated as compliance required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

You are requested to take the above information on records.

Thanking You,

Yours faithfully,

(Pankaj Gupta) Company Secretary Membership No.: F4647

Encl: As above

PHONE: +91 11 2331 5941 FAX: +91 11 2331 1203 E-mail: sprl@shrirampistons.com Website: www.shrirampistons.com PAN: AAACS0229G • CIN: L29112DL1963PLC004084

Diluted:

Place: Jaipur

PART I

CONTINENTAL SECURITIES LIMITED

REGD OFFICE: FLAT NO. 301, METRO PLAZA, PARIVAHAN MARG, JAIPUR, RAJASTHAN- 302001 CIN: L67120RJ1990PLC005371, Email: continentalsecuritieslimited@gmail.com Website: www.continentalsecuritiesItd.com, Contact No.: 0141-2943037, 9414077226

Statement of Financial Results for the Quarter and Year Ended on 31" March, 2023 (Rs. in Lakhs) **Particulars** 3 Months Year. Previous Previous Ended Ended Year Year Quarter Ended Ended Quarter 31.03.2023 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2023 Audited Audited Audited Audited Total income from operations (net) 33.37 125.16 30.19 105.10 Net Profit / (Loss) for the period 19.99 72.12 (before tax, Exceptional and/ or extraordinary items) 21.71 84.49 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) 21.71 84.49 19.99 72.12 Net Profit / {Loss} for the period after tax 53.40 (after Exceptional and/ or Extraordinary items) 15.48 62.53 15.01 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) 15.48 62.53 15.01 53.40 Equity Share Capital (Face Value Rs. 2.00 Per Share in 425.06 the Qtr Ended 31st March, 2023) 425.06 425.06 425.06 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) 0.00 0.00 0.00 0.00 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic: 0.07 0.29 0.35 1.26

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges unde Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended on 31st March, 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and website of company (www.continentalsecuritiesItd.com). There is split of Equity Shares from Face Value of Rs . 10.00 to Rs. 2.00 per share which been decided in the EGM of the Company held on 01st March 2023, resulted the number of shares of the Company has been increased from 4250600 to 21253000

For CONTINENTAL SECURITIES LIMITED

Date: 29.05.2023

Rajesh Khuteta (Managing Director) DIN: 00167672

Sd/

AYUSHMAN INFRATECH LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LIMITED)

Regd Off: DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017 CIN: L45100DL1973PLC006795, Email: cs@greatvalueindia.com, Contact No.: 011-41349612-14

Extracts of the Audited Financial Results for the Quarter & year ended 31.03.2023

All Figures in thousands unless otherwise state

			Quarter Ended	1	Financial '	Year ended
S. No.	Particulars	31.03.2023 (Audited)	31.12.2022 (Un-Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from operations	100,606.52	20,564.61	73,419.21	142,871.81	175,005.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7,513.08	512.43	3,590.20	7,544.79	2,577.13
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraodinary items)	7,513.08	512.43	3,590.20	7,544.79	2,577.13
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	5,553.46	379.09	2,604.12	5,552.75	1,851.50
5	Total comprehensive Income for the Period [Comprising Profit / (Loss) for the Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,295.06	379.09	2,809.81	6,294.35	2,057.19
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per share)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7	Other Equity	44,388.48	38,093.41	38,094.13	44,388.48	38,094.13
8	Earnings per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised) (a) Basic (b) Diluted	27.77 27.77	1.90 1.90	13.02 13.02	27.76 27.76	9.26 9.26
9	Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised) (a) Basic (b) Diluted	27.77 27.77	1.90 1.90	13,02 13.02	27.76 27.76	9.26 9.26

Figures for the previous period/year have been re-classified/re-grouped/re-arranged, wherever necessary. The Figures of last Quarters for the quarter ended 31st March 2023 and 31st March 2022 are the Balancing figures between Audited figures in respect of the full Financial Yea and the published year to date figures upto the third Quarter of the relevant Financial Year. The above Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 have been reviewed by audit committee of the company and

The above standalone financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2023 has been audited by the M/s. P.K. Narula & Co.

on the recommendation of the audit committee, Financial Results have been subsequently approved by the Board of Directors at their meeting

Statutory Auditor of the company, who has expressed an unmodified opinion on the same. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the stock Exchange under Regulation 33 of the

SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Websites of the stock Exchange(s) and the listed entity. (www.ayushman.net.in.)

5 The company has only one Business segment.

For AYUSHMAN INFRATECH LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SHANTNU INVESTMENT (INDIA) LIMITED)

Place: New Delhi Date: 29.05.2023

Notes:

DIN No. 00093526 11am v 12am

Description of the

property/ Secured Asset

Pragya Agarwal

(Managing Director)



Name and Address

of the Applicant/s

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED Corporate Office: 1st Floor, 'Dare House', No.2, N.S.C. Bose Road, Chennai-600 001. Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

Date of Demand

Notice & Amount

Outstanding

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13[2] OF THE SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

You, the under mentioned Borrower / Mortgagor is hereby informed that the company has initiated proceedings against you under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and that the Notice under 13 (2) of the Act sent to you by Registered Post Ack. Due for Borrower/s has been returned undelivered. Hence, you are hereby called upon to take notice and pay the outstanding loan amount mentioned against the said account with interest accruing there from within 60 days from the date of this publication, failing which the company will proceed against you by exercising its right under Sub-Sec (4) of Section 13 of the Act by enforcing the below mentioned security to realize its dues with interests and costs. It is needles to mention that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to the company.

	12	The state of the s	
Loan Account No. HE02DES00000002724, X0HEDES00003173798, X0HEDES00003352321, X0HEDES00004050759) 1. Satish Nagar @Satish Nagar Chandrapal Singh (Applicant) 2. Geeta S @ Geeta (Co Applicant) 3. Satish Thread Company(Through its Authorized office/Authorized Representative/Partner/Director/Proprieto rs) (Co_Applicant) All Above At: A-32, Gali No.13, Khajuri Khas, Delhi-110053.(M)-9911115951 Also At: B-191, St.No.16, Khajuri Khas, delhi- 110094. (M)-9911115951/9911115950 Also At: A-1/33, Gali No.13, Khajoori Khas, Badarpur Khadar, Sabhapur, New Delji-110094	Rs. 703941.00 Rs. 3500000.00 Rs. 100000.00 Rs. 4700000.00	17/05/2023 Rs. 8211769.00 (Rupees Eighty Two Lakh Eleven Thousand Seven Hundred and Sixty Nine Only) as on 08/05/2023	A Plot Land Area Measuring 83.61 Sq. Mtrs, I.E. 100Sq, Yds. (Plinth Covered Area 25Sq.Mtrs.) Out Of Entire Area 200 Sq.Yds. Out Of Khasra No.108/2, Bearing Property No.A-32 Consisting One Room Set On Ground Floor And With The Rights To Construct Upto The Last Storey Situated At In The Area Village Khajoori Khas, In The Abadi Of A-Block, Gali No.13, Khajoori Khas, Illaqa Shardhara, Delhi-110094 Which Is BoundedAs Under: E-PropertyOf Rakesh Kataria, W-PartOf Property A-32, N-PropertyOf Veer Pal, S-Gali 15 Ft Wide.
Loan Account No. X0HEDEF00001948882) 1. Rani Bajaj(Applicant) 2. Rohit Bajaj (Co_Applicant) 3. M/s Rani Fabrics (Through its AR/Proprietors/Director/Partner) (Co_Applicant) All Above At: RZ-39-A, Gali No.6, Tughlakabad Extn. New Delhi - 110019 M - 9818035091 Also At: RZ-42/6, Tughlakabad Extn. New Delhi 110019 M - 09818035091	Rs. 1700000.00	22/05/2023 Rs. 2056585.00 (Rupees Twenty Lakh Fifty Six Thousand Five Hundred and Eighty Five Only) as on 08/05/2023	Property Bearing No. Rz-39-A/6 Admeasuring 55 Sq. Yds Out Of KhasraNo. 412 Situated At Tughlakabad Extn , New Delhi.
Loan Account No. HE01DES00000027636) 1. Praful Kumar Anil Kumar @ Praful Kumar (Applicant) 2. Surbhi Agarwal (Co_Applicant) 3. Terakast (Through its Authorized office/Authorized Representative/Partner/Director/Propriet ors) (Co_Applicant) 4. Surbhi Enterprises (Through its Authorized office/Authorized Representative/Partner/Director/	Rs. 23800000.00	17/05/2023 Rs.20705038.00 (Rupees Two Crore Seven Lakh Five Thousand and Thirty Eight Only) As On 80/05/2023	Residential House-Nagar Palika No. 734, 734/219,19 Built On Plot No.19, Total Area Admeasuring 439. 11 Sq. Yds. I.E. 367. 28Sq. Mtrs. Situated At Mohalla Aalok Hapur Within Limites Of Municipal Corporation Hapur, Pargana & Tehsil & District Hapur, Uttar Pradesh Which Is Bounded As Under: E-Others, W-Road 40 Ft Wide, N-Others House, 5-Others House.
Proprietors) (Co_Applicant) 5. Anil Kumar (Co_Applicant) 6. Metalon Marketing(Through its Authorized			

Entire Second Floor, Without Roof Terrace Rights Part Of Free Hold, Built (Rupees Sixty Four Up Property No.60 Situated At Priyadarshini Vihar, Shown In The

3. M/S Kapil Brothers (Through its Rs. 800000.00 Authorized office/Authorized 08/05/2023 Representative/Partner/Director/Proprietors) (Co_Applicant)

4. Jyoti Girdhar (Co_Applicant)

5. Taruna Verma (Co_Applicant) All Above At: 100, Kalvan Vihar, Dr.Mukerjee Nagar, S.O.North West, Delhi-110009.

(M)- 9999068687

Also At: A-14, Shardha Nand Market, G.B.Road, Delhi-110006.(M)-99990686687 Also At: Property No.60, Second Floor, Priyadarshini Vihar, Delhi-110009(Phase I-Model

Loan Account No

X0HEELD00002551934,

X0HEELD00003217185)

1. Kapil Girdhar (Applicant)

2. Amit Girdhar (Co_Applicant)

Town). (M)-9999068687

and the Australian Control of the Co		
Loan Account No. XOHEDHE00000827601) 1. Anurag Sharma (Applicant) 2. Ambica Sharma (Co_Applicant) All Above At: 29,Sreshtha Vihar, Yojna Vihar,New Delhi-110092.(M)-9899256048 Also At: 36/22, Dilshad Garden, Behind Julfe Bengalt, New Delhi-110095.(M)-9899256048	(Rupees One Crore Forty One Thousand Two Hundred	Built Up Property Having Its Area Measuring 190Sq.Yds. I.E.158.85 Sq. Mtrs. Bearing Plot No.29 Consisting Of According To The Site With The Rights To Use And Construct Upto The Last Permissible Storey Situated In The Layout Plan Of Shrestha Chbs Ltd., Colony Known As Shrestha Vihar, Delhi-110092 , Which Is Bounded As Under: E-Plot No.30, W-Plot

Rs.

207849.00

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF SHINCO OVERSEAS PRIVATE LIMITED

SHINCO OVERSEAS PRIVATE LIMITED Name of Corporate Person Date of Incorporation of 15/06/1995 Corporate Person Authority Under Which Corporate Registrar of Companies-Delhi Person is Incorporated /Registered Corporate Identity Number of U74899DL1995PTC069831 Corporate Person Address of the Registered office of A-8/1. Naraina Industrial Area. Delhi-110028 Corporate Person Liquidation Commencement Date 27/05/2023 of Corporate Person Name, Address, Email Address, Deepak Gupta Telephone Number And The Office address: 607, 6th Floor, Rattan Jyoti Building Rajendra Place, New Delhi-110008 Registration Number of the

Last Date for Submission of Claims 26/06/2023 Notice is hereby given that the Shinco Overseas Private Limited has commenced voluntar liquidation on 27th May, 2023. The stakeholders of Shinco Overseas Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claimson or before 26th June, 2023, to the liquidator at the address mentioned against item 7.

Liquidator

Date: May 29, 2023

Place: New Delhi

E-mail id : deepak@drassociates.org

Registration number: IBBI/IPA-001/IP-P02561/2021-22/13875

Deepak Gupta

Contact No.: 9811423486

All stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Liquidator of Shinco Overseas Private Limited Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P02561/2021-22/13875

SBI STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Management Branch: 2" Floor, "Paramsiddhi" Complex, Opp. V.S. Hospital, Ahmedabad - 380006, Ph : (079) 2658 1081/1206, Fax (079) 2658 1137/7120, E-mail: sbi.04199@sbi.co.in

[See Rule-8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Properties Whereas, The undersigned being the authorized officer of the State Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 02.03.2023 calling upon the borrower M/s. Shakti Yarn Pvt. Ltd. and Guarantors viz. Shri Lalit Omkar Chandak and Shri Bhagwan N Mahalik to repay the amount mentioned in the demand notice issued under section 13(2) being Rs. 54,12,70,581.93 (Rupees Fifty Four Crores Twelve Lakhs Seventy Thousand Five Hundred Eighty One and Paise Ninety Three Only) as on 28.02.2023 and accrued interest and cost etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower / Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13 (4) of the said act read with rule 8 of the said rules on this 29" day of May of the year 2023.

The Borrower / Guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of State Bank of India for net amount of Rs. 54,12,70,581.93 (Rupees Fifty Four Crores Twelve Lakhs Seventy Thousand Five Hundred Eighty One and Paise Ninety Three Only) as on 28.02.2023 together with further interest thereon till the date of payment and incidental expenses, costs, charges etc.

The borrower's attention is invited to the provisions of sub - section (8) of section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Owned by: Shri Lalit Omkar Chandak. All that piece and parcel of OF Plot bearing khasra No(s) 714, 715, 719, 723/2, 725/1, 728, 731, 732, 733, 734, 741/1 1409/725, 1410/722, 1411/727, 1412/742, 76, 717, 729, 730 and 718 Admeasuring 37953 Sq. Mtrs. Village - Amthala, Tehsil - Abu Road, District - Sirohi, Rajasthan. Bounded by :- East: 383'2" C/L of Road 41 Ft., West: 320'2" & Kh. No. 697, 712, North: 953' 7" & Kh. No. 681, 720, 726, South: 112' 1", 749'8", 228' 7" & Kh. No. 1771, 713, 736, 735, 740 ka land.

Date: 29.05.2023 **Authorised Officer** Place: Amthala, Sirohi State Bank of India



SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD. Read. Office: 3rd Floor, Himalaya House,

COMPANY NOTICE

23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 CIN: L29112DL1963PLC004084; PAN: AAACS0229G Phone: 011 23315941, Fax: 011 23311203 E-Mail: compliance.officer@shrirampistons.com, Website: www.shrirampistons.com

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting of the Company (59th AGM) will be held on Tuesday, 4th July, 2023 at 4:00 P.M. Indian Standard Time (IST) through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means (VC/ OAVM) to transact the ordinary and special businesses, as set out in the Notice of AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 02/2022 dated May 5, 2022 No. 10/2022 dated December 28, 2022 and all other relevant circulars, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No.SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No.SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022, Circular No.SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India

The Company is providing the facility to the Members to exercise their right to vote by electronic means (i.e. remote e-voting and e-voting during the AGM) on the resolutions set out in the Notice of 59th AGM

In terms of above MCA's and SEBI's Circulars, Notice of the 59th AGM and Annual Report for the year 2022-23 will be sent only by e-mail to those Members who have registered their e-mail ids with the Company/Registrar & Transfer Agent (RTA) Depository Participant (s). In terms of above circulars, the requirement of sending physical copy of Notice and Annual Report has been dispensed with. Manner of registering/updating email address:

Shareholders, who have not registered their e-mail id can get their email ids registered with the Company/RTA/Depositories. The process for updation or e-mail id is as under:

- a. Members holding shares in physical form may temporarily register their e-mail id with the Company by providing necessary details i.e. (a) Folio Number (b) Name of shareholder (c) Scanned copy of the share certificate (front and back) (d) Self attested scanned copy of PAN card (e) Self attested scanned copy of Aadhar Card by e-mail to compliance.officer@shrirampistons.com. Thereafter, members are requested to send dully filled and signed Form ISR-1 (available on the website of the Company - https://shrirampistons.com/ investors-guide-2/) to the Company/RTA for permanent registration of the email id.
- **b. Members holding shares in demat form** may provide (a) Demat accou<mark>nt</mark> details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID) (b) Name of Shareholder (c) Self attested scanned copy of Client master or copy of Consolidated Account Statement (d) Self attested scanned copy of PAN card (e) Self attested scanned copy of Aadhar Card compliance.officer@shrirampistons.com.

c. The Company shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above mentioned shareholders. Notice of AGM and Annual Report shall be available on Company's website viz.

www.shrirampistons.com under Investors' Guide and on website of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The AGM Notice will be disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com

Shareholders may note that the Board of Directors at its meeting held on May 8, 2023 has recommended "Golden Jubilee" final dividend for the FY 2022-23 of Rs. 5/- per equity share. This is in addition of interim dividend of Rs. 10/- per equity share already paid. The dividend, if approved by the shareholders at the ensuing AGM, will be paid within 30 days from the date or approval by the members in the ensuing AGM, subject to deduction of tax at source. The Shareholders are requested to update/ register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate with complete bank details in order to receive the **'Golden Jubilee''** final dividend or future dividends directly into their bank accou<mark>nt</mark> in the following manner:

a. If the shares are in demat form, then submit the requisite documents as may be required by the Depository Participant(s) with whom the demat account

(i) Physical copy of signed request letter containing name of shareholder, folio no., bank details (Account Number, Bank & Branch name, IFSC code etc.) (ii) Self-attested copy of PAN card and (iii) Cancelled cheque leaf, to the Company's/RTA's address.

be taxable in the hands of the shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of the final dividend, if approved at AGM. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate, as applicable, shareholders are requested to submit their documents in accordance with the provisions of the Act.

(Pankaj Gupta) Company Secretary Membership No.: F-464

A Canara Bank केनरा बैंक Carl Speciatellers

Specialized SME Gurgaon-II Branch BIC-18243

13(12) read with Rule 3 of Rules, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers / mortgagors / guarantors

sted here under (hereinafter referred to as the "said Borrowers"), to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt

of Notice, as per detail given below. The said Notices have either been returned undelivered by the postal authorities or have not been acknowledged

by the borrowers / mortgagors / guarantors. Hence the Bank by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notice. The

undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers/ mortgagors.

DEMAND NOTICE

Notice U/s 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002. Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Canara Bank under SARFAESI Act and in exercise of powers conferred under Section

guarantors as per the said Act. Copies of the said Notices are available with the undersigned; and the said Borrowers / mortgagors / guarantors, may, if they so desire, collect the said copies from the undersigned on any working day during normal office hours. Against the above background, Notice is hereby given, once again, to said Borrowers / mortgagors / guarantors to pay to Canara Bank, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated here in below together with future interest at contractual rates and rests from the dates mentioned below till the date of payment under the loan & other documents. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged / hypothecated to Canara Bank by the respective borrowers. If the said borrowers / mortgagors / guarantors fail to make payment to Canara Bank as aforesaid, Then Canara Bank shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the SARFAESI Act and Rules entirely at the risk of the said borrowers. mortgagors / guarantors as to the costs and consequences. Further, attention is invited to provisions of Sub-section (B) of the Section 13 of the Act, In respect of time available, to redeem the secured assets. You are prohibited under the SARFAESI Act from transferring the secured assets, whether by way of sale, Lease or other wise with out the prior written consent of Canara Bank. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules shall be liable for imprisonment and / or fine as given under Section 29 of the Act. Name and Address of Borrower / Guarantor Description of the Movable Property **Outstanding Amount** Borrower: 1. M/s Drd Impex Pvt. Ltd., 209, 2nd Stock of Electrical Equipments Rs. 26.64.100.24 Date of floor, PyareLal Complex, Sukhrali, Gurgaon , Name of Titile Holder: M/s Drd (Rupees Twenty six lakh sixty four Demand Notice Mehrauli road Sector 17, Gurgaon HR 122001. thousand one hundred and paisa Impex Pvt. Ltd. twenty four only) together with 2. Mr. Satyavrat Dubey S/o Rampal Dubey, House further interest and incidental No. 44, Stree No. 10, Block U, DLF PH 3, Nathupur,

SEASONS

Gurugram, Haryana-122002

Mrs. Vidya Dubey W/o Mr. Satyavrat Dubey.

House No. 44, Stree No. 10, Block U. DLF PH 3.

Nathupur, Gurugram, Haryana-122002

Date: 30.05.2023 Place: Gurgaon

SEASONS TEXTILES LIMITED

CIN - L74999DL1986PLC024058

Registered office: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024 Email: cs.stl@seasonsworld.com, Website: www.seasonsworld.com Phone No. 0120-4690000 FAX: 0120-4351485

expenses and costs

Date of NPA

30.04.2023

Authorised Officer, Canara Bank

EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2023 Vear anded Vear anded

	DARTICUI ARC		luarter ende	d	Year ended	Year ended
	PARTICULARS	31-03-23 (Audited)	31-12-22 (Unaudited)	31-03-22 (Audited)	31-03-23 Audited)	31-03-22 Audited)
1	Total income from operations (Net)	520.62	654.52	849.13	2390.24	2656.21
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	4.80	2.91	4.47	(45.66)	(51.40)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and after exceptional items)	4.80	2.91	4.47	(45.66)	(51.40)
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	(7.06)	5.42	6.62	(48.49)	(42.17)
5	Total comprehensive Income for the period after comprising Profit/ (Loss) for the period (After tax) and other comprehensive Income (after Tax)	3.82	5.42	11.92	(37,61)	(36.87)
6	Equity Share Capital	749.03	749.03	749.03	749.03	749.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				1431.13	1468.75
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)		S ACVENZA	903087553	V3.00130X-1	\$19.948.N
	Basic:	0.09	0.07	0.09	(0.65)	(0.56
	Diluted:	0.09	0.07	0.09	(0.65)	(0.56)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarterly financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.seasonsworld.com.in). The above standalone and consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the

Board of Directors at their meeting held on Monday, 29th May, 2023. For and on behalf of the Board of Directors Place: Noida

Date: 29/05/2023

(Inderjeet Singh Wadhwa) Chairman & Managing Director

(In Thousand)

MFL INDIA LIMITED Regd. Off.: 94/4, UG-F, UG-9 VILLAGE PATPARGANJ, DELHI-110091

E-mail id: helpdesk@mflindia.in, Website: www.mflindia.info CIN: L63040DL1981PLC012730, Ph: 011-32076767

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

Quarter Quarter Quarter

Year Year Ended Ended Ended Ended Ended **Particulars** March 31 December March 31 March 31 March 31, 2022 2023 31, 2022 2023 2022 Total income from operations 45,519 1,14,830 21,631 25,095 1,38,015 Total Expenses 1,14,235 22,075 5,532 1,37,974 27,691 Net Profit / (Loss) for the period 596 -444 17,828 (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items) 19564 Net Profit / (Loss) for the period before tax 596 -444 19564 (after Exceptional and/or extraordinary items) 40 17,828 Net Profit / (Loss) for the period after tax 596 -444 19564 (after Exceptional and/or extraordinary items) 40 17,828 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and 1.14.830 Other Comprehensive Income (after tax)] 21,631 25.095 1,38,015 45,519 3,60,292 Equity Share Capital 3,60,292 3,60,292 3,60,292 3,60,292 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year -3,55,241-3,55,282Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)

 The above Audited Financial Results reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on May 27, 2023.

The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results Filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and year ended financial results are available on the website of the Stock

Exchange i.e. www.bseindia.com and of the Company website i.e. www.mflindia.info. For MFL India Limited **Anil Thukral** (Director)

Place: New Delhi

Date: 27.05.2023

DIN: 01168540 LANDMARK Landmark Property Development Company Ltd.

Regd. Office: 11 th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi -110 001 CIN: L13100DL1976PLC188942 Telephone No.: 91 43621200 Fax: (011) 41501333 Website: www.landmarkproperty.in E-mail: info@landmarkproperty.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 (Rs. In Lakhs)

		Quarte	r ended	Year	ended
SI. No.	PARTICULARS	Rs/Lakhs 31-Mar-23	Rs/Lakhs 31-Mar-22	Rs/Lakhs 31-Mar-23	Rs/Lakhs 31-Mar-22
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income	(0.13)	57.97	66.87	159.53
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax & Exceptional Items)	(701.56)	(47.35)	(739.17)	(11.30)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	(701.56)	(47.35)	(739.17)	(11.30)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	(626.33)	(35.01)	(654.08)	(7.86)
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period (after tax and Other Comprehensive Income (after tax)	(626.41)	(35.30)	(654.16)	(8.15)
6	Equity Share Capital(Face Value of Re. 1/- each)	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	182	20	4,199.35	4,853.51
8	Earnings Per Shares(Face Value of Re. 1/- each) (not annualised) (a) Basic (in Rs.)	(0.47)	(0.03)	(0.49)	(0.01)

Note: There were no exceptional items during the quarter and year ended 31st March, 2023.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results is available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.landmarkproperty.in

For Landmark Property Development Company Limited,

(0.47)

(0.03)

Gaurav Dalmia

(0.49)

financialexp.epapr.in

Representative/Partner/Director/Propriet ors) (Co_Applicant) 7. Mridula Rani (Co_Applicant) All Above At: R19, Alok, Hapur, Ghaziabad, Uttar Pradesh-245101.(M)-9971133680 Loan Account No. HE02ELD00000005186, X0HEELD00002503802,

17/05/2023 1158000.00 Rs. 6496447.00 4988361.00 Lakh Ninety Six Thousand Four

Hundred and Forty Scheme Of Kingsway Camp, Delhi-Seven Only) as on 110009.

Layout PlanOf Re-Development

b. If the shares are in physical form, then submit the form ISR-1 along with

Shareholders may note that as per Income Tax Act, 1961 (Act) and other applicable provisions, dividends paid or distributed by a Company after April 1, 2020, shall

For SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD.

New Delhi

Date: 29.05.2023

Place: New Delhi

(b)

Diluted (in Rs.)

Chairperson & Managing Director

(0.01)

Date: 30/05/2023 Place DELHI/NCR

No.28, N Service Lane, S-Road30Ft Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

Place : New Delhi Dated: May 29, 2023 3rd Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 0<mark>01</mark>

टाटा कपिटल हाउसिंग फाइनस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 सीआईएन नं.: यू67190एमएच2008पीएलसी187552

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत।

के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में ''दायित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों), जिनकी सूची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मांग सूचना / ओं मे अंकित बकाया धनराशियों का, संबंधित सूचना / ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणो के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई थीं तथा जो अब भी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के इच्छुक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रति / यां प्राप्त कर लें।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि टीसीएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां नीचे इसमें नीचे उल्लिखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, निम्न स्तंभ (घ) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को बंधककृत किया गया है।

अनुबंध संख्या	दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	कुल बकाया देयराशि (रु.) निम्न तिथि के अनुसार*	मांग सूचना की तिथि एनपीए की तिथि
1063 5359	श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव (ऋणकर्ता) और सुश्री प्रीति भाला (सह—ऋणकर्ता)	20.05.2023 के अनुसार, रु. 37,92,156 / — (रुपये सैंतिस लाख बयानबे हजार एक सौ छप्पन मात्र)	20-05-2023 03-10-2019
ਧਰਿਮਰ ਧ	रिसंपत्तियों / अन्नल संपत्तिये	ं / बंधककत संपत्तियों का विवरण : आवासीय	अपार्टमेंट / फ्लेट

सं. सी 1101 के समस्त भाग तथा अंश जो टाईप-।।बी, 11वें तल, टॉवर सी, जिसका अधि क्षेत्रफल 1175 वर्ग फुट है, ''वैभव हेरिटेज हाईट्स'' के रूप में विदित प्रोजेक्ट में, भूखंड सं. जीएच–01ई, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा पश्चिम, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201009 में स्थित है।

9751 811	श्री कपिल शर्मा (ऋणकर्ता) तथा श्रीमती नेहा शर्मा और	23.05.2023 के अनुसार, रु. 36,56,742/— (रुपये छत्तीस लाख छप्पन हजार सात सी	
811	श्री धीरज सिंह	बयालिस मात्र)	09-04-2023
	(सह—ऋणकर्ता)		
ਸਰਿਸ਼ਰ	गरिकंपन्नियों / शहरू कंपन्निय	ों / बंधककव संगठियों का विवसा • ०० वी	गचके आवागीम

प्रातभूत पारसपात्तया/अचल सपात्तया/बंधककृत सपात्तया का विवरण : 03 बाएचक आवासा फ्लैट / यूनिट सं. २६०१ के समस्त वह भाग तथा अंश जो २६वें तल, ब्लॉक–०१, टाईप–०३, अधिमापन 1450 वर्ग फूट (अधि क्षेत्रफल) अर्थात् 134.71 वर्ग मीटर, मिराज, जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी, ग्रेटर नोएडा-201308 (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।

*संबंधित मांग सूचना दिनांकित उपरांकित में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज अतिरिक्त ब्याज, आकरिमक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा / अथवा वसुली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पित्त(यों) / अचल सम्पित्ति(यों) के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति—अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा, उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) / अचल सम्पत्ति(यों) का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनयम के अंतर्गत उपलब्धानसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जाएगा।

दिनांक : 30-05-2023 हस्ता. / - प्राधिकत अधिकारी. स्थान : दिल्ली कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जेडीएस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन: L65999DL1984PLC018035 पंजी. कार्यालयः 500, 5वां तल, आईटीएल ट्विन टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

ई-मेल आईडी: jdsfinancecompany@gmail.com 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही एवं छमाही हेतु लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन वित्तीय परिणामों का विवरण (प्रति शेयर डैटा छोडकर राशि रु. लाख में

ж.	11	Č:	समाप्त तिमाह	fi	समाप	त वर्ष
सं.	विवरण	31.3.2023 लेखापरीक्षित	31.3.2022 लेखापरीक्षित	31.12.2022 अलेखापरीक्षित	31.3.2023 लेखापरीक्षित	31.3.2022 लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	4.16	2.14	24.66	34.66	5.59
3	अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों	S 03/47	52,330	2 24 2 2	1-87.09	12000
	से पूर्व) लाभ/(हानि)	11.19	(290.16)	(64.41)	(51.15)	(324.10)
3	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण			- 2000000		
	मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	11.19	(290.16)	(64.41)	(51.15)	(324.10)
1	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा		mysbaneniosodes	- madericeis des	- Acronical Con-	ary description relevable
	असाधारण मदों के पश्चात) कुल लाभ/(हानि)	11.19	(290.16)	(64.41)	(51.15)	(324.10)
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	573.50	573.50	573.50	573.50	573.50
3	पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर आरक्षियां	(359.68)	(308.53)	(370.87)	(359.68)	(308.53)
,	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के)					-
1	(सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)					
	(क) बेसिकः					
	(ख) डायल्यूटेडः	0.20	(5.06)	(1.12)	(0.89)	(5.65)

नोटः उपर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेजा के साथ दर्ज समाप्त ातमाह वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसार

जेडीएस फाइनांस कम्पनी लि. हस्ता. स्थानः दिल्ली तिथि: 29.05.2023 निदेशक

एमपीएस फार्मा लिमिटेड (पर्व में एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड) CIN: L74899HR1994PLC038300

पंजी. कार्या:: 138, रोज का मेओ, इंडस्ट्रियल एरिया, सोहना, जिला मेवात (हरियाणा)-122103, टेली. नं.: 011-4242884 फैक्स नं.: 011-43571047

वेबसाईट: www.advikindia.com ईमेलः mail@advikindia.com, 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित स्टैंडएलॉन परिणामों का सार (रु. लाखों में

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	31.03.2023 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2023 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	2.33	0.44	2.33	29.0
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(32.27)	(31,40)	(107.09)	(93.25
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के	बाद) (32.27)	(31,40)	(107.09)	(93.25
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के ब	बाद) (31.53)	42.46	(105.03)	(14.16
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु बाद) लाभ∕ (हानि) एवं अन्य व्यापक अ के बाद) से शामिल)		43.86	(103.51)	(12.45
इक्विटी शेयर पूंजी	1911.14	1911.14	1911.14	1,911.1
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दश् पुर्नमूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	र्शांये गये		(1,632.02)	(1,528.50
v	नारी तथा लः (0.16) रलः (0.16)		(0.55) (0.55)	,
	3 को समाप्त तिमाही एवं	ं वर्ष के अंकेक्षित	वित्तीय परिणामों	के विस्तृत प्रार
एएसई में दाखिल की गई 31 मार्च, 2023 का सार है। उक्त तिमाही वित्तीय परिणाम	•			,

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर एमपीएस फार्मा लिमिटेड (पूर्व में एडविक लैबोरेटरीज लिमिटेड

पीयश कमार अग्रवाल स्थानः नई दिल्ली तिथि: 29 मई, 2023 DIN: 00090423

तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.mpspharmaa.com पर उपलब्ध है।

हिंदुस्तान अबेन इफ्रास्ट्रक्कर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः कंचनजंगा, 7वीं मंजिल, 18, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001

MPS

CIN: L31300DL1959PLC003141, www.hindusthanurban.com, फोन: 011-23310001 (5 लाइन), ई-मेल: investors@hindusthan.co.in 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का सार्राश

				(प्र	ति शेयर डेटा को छ	ग्रेड़कर रु. लाख में		
i	Î	समेकित						
क्र.	विवरण		समाप्त तिमाही	-	समाप	त वर्ष		
सं.		31 मार्च, 2023	31 दिसम्बर, 2022	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		
		(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित) =	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
1.	प्रचालनों से कुल आय	15,042.07	13,389.18	18,909.59	58,463.18	73,988.51		
2.	अविध हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	(1,071.96)	(1,861.00)	(1,536.52)	(7,982.90)	(861.05		
	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित मदों के पश्चात)	(1,071.96)	(1,861.00)	(1,536.52)	(7,982.90)	(861.05		
4.	कर तथा अपवादित मदों के पश्चात अविध हेतु निवल लाभ/(हानि)	(830.04)	(1,335.63)	(1,054.40)	(5,806.80)	(376.02		
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि/वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक		2	72	2			
	आय (कर पश्चात) सहित]	(793.25)	(1,347.04)	(1,107.30)	(5,804.26)	(421.68		
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	144.29	144.29	144.29	144.29	144.29		
7.	अन्य इक्विटी				37,645.86	41,477.70		
8.	रु. 10/- प्रत्येक के आय प्रति शेयर			. 6	50 8			
	(क) बेसिक (रु.)	(43.10)	(60.28)	(47.82)	(265.87)	(51.59		
. 8	(ख) डाइल्यूटेड (रु.)	(43.10)	(60.28)	(47.82)	(265.87)	(51.59		
1	लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्ड्एलोन) का सारांश नीचे दिया गया है :	***		7.0	-			

		705		/		
7.	अन्य इक्विटी				37,645.86	41,477.70
8.	रु. 10/- प्रत्येक के आय प्रति शेयर			į.	10 1	
	(क) बेसिक (रु.)	(43.10)	(60.28)	(47.82)	(265.87)	(51.59)
. 5	(ख) डाइल्यूटेड (रु.)	(43.10)	(60.28)	(47.82)	(265.87)	(51.59)
1.	लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डएलोन) का सारांश नीचे दिया गया है :					
П	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप	त वर्ष
		31 मार्च, 2023	31 दिसम्बर, 2022	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
6		(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1 1/2	प्रचालनों से कुल आय	6,588.90	4,773.79	6,868.24	22,159.02	28,922.17
	कर पूर्व लाभ	(414.40)	(341.72)	(346.12)	(1,579.85)	(2,040.95)
	कुल व्यापक आय	(281.16)	(226.10)	(236.71)	(1,050.95)	(1,317.62)

1. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और निदेशक मण्डल द्वारा आयोजित 28 मई, 2023 को अपनी बैंठक में अनुमोदित की गयी।

2. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत 31.03.2023 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। समाप्त तिमाही तथा वर्ष के समेकित तथा स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.huil.com पर उपलब्ध हैं बोर्ड के आदेशानसार

(रु. लाखों में)

कृते हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(दीपक केजरीवाल) प्रबंध निदेशक डीआईएन : 07442554

अहलुवालिया कॉन्ट्रेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड CIN No. L4510DL1979PLC009654

पंजी. कार्यालयः v-177, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020वेबसाईटः www.acilnet.com, ईमेलः mail@acilnet.com

31 मार्च. 2023 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिये स्टैंडएलॉन तथा समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

			स्टैं	डएलॉन			समे	कित	
क्रम सं.	विवरण	समाप्त	तिमाही	समाह	। वर्ष	समाप्त	तिमाही	समाप्त	वर्ष
"	14414	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
Ш	Ï	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	86305.25	73086.09	283839.33	269246.91	86305.25	73086.09	283839.33	269246.91
II	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	9772.35	5667.55	26183.93	20843.59	9771.19	5666.01	26179.37	20839.35
HI	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	9772.35	5667.55	26183.93	20843.59	9767.56	5666.01	26165.38	20839.35
IV	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	7221.27	4235.16	19416.23	15525.90	7216.48	4233.62	19397.68	15521.66
٧	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	7247.82	4452.94	19534.16	15647.73	7243.03	4451.40	19515.61	15643.49
VI	इक्विटी शेयर पूंजी	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75
VII	अन्य इक्विटी	30,3000,000,000		9		101000000000000000000000000000000000000	N 5	2	11000000
				121640.32	102307.12			121493.43	102178.79
VIII	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये)								
	मूल	10.78	6.32	28.98	23.18	10.77	6.32	28.96	23.17
	तरल	10.78	6.32	28.98	23.18	10.77	6.32	28.96	23.17

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28 मई, 2023

- 1. उक्त स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसके बाद 27 मई, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 तथा उसके बाद संबंधित संशोधन नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है। सांविधिक आडिटरों ने इन परिणामों पर अ-संशोधित ऑडिट अभिमत प्रकट किये हैं।
- 2. उपरोक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015, यथा–संशोधित के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। ये परिणाम कम्पनी की वेबसाईट www.acil.net.com तथा साथ ही बीएसई तथा एनएसई की वेबसाईट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 27.05.2023

www.readwhere.com

(विक्रमजीत अहलुवालिया) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN NO. 00304947

हस्ता./-

JAGSONPAL FINANCE & LEASING LTD. CIN: L65929DL1991PLC043182

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2023

Read, Office: D-28, First Floor Greater Kailash Enclave - I, New Delhi - 110 048, Tel: 011-49025758, Fax: 011-41633812, Web: www.jagsonpal.co.in, Email: jagsonpalfinance@gmail.com

Quarter 31.03.2023 2.2 -0.4	31.03.2022 -2.86 -4.95	Year 6 31.03.2023 4.76 -6.37	31.03.2022 5.4
2.2	-2.86	4.76	600
			5.4
-0.4	-4.95	6 27	
1,000,000,000		-0.37	-4.92
-0.4	-4.95	-6.37	-4.92
-0.4	-4.95	-6.37	-4.92
-0.4	-4.95	-6.37	-4.92
550.04	550.04	550.04	550.04
-	- X071100	-489.27	-483
-0.01	-0.09	-0.12	-0.09
_	-0.4 -0.4 550.04	-0.4 -4.95 -0.4 -4.95 550.04 550.04 	-0.4 -4.95 -6.37 -0.4 -4.95 -6.37 550.04 550.04 550.04 489.27

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Regulrements) Regulation 2015. The Full format of the Financial Results for the Quarter and year ended on 31.03.2023 are available on the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the company's website www.jagsonpal.co.in.

The figures are regrouped/rearranged wherever necessary. By Order of the Board Kanwarpal Singh Kochhar Place: New Delhi Chairman & Managing Director Date: May 29, 2023 DIN: 00529230

CIN No: L63090DL1987PLC319212 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 53–ए / ८, रामा रोड इन्डरट्रीअल एरिया, नई दिल्ली–110015 ई-मेल आईडी : corporate@roadwaysindia.com , वेबसाइट : www.roadwaysindia.com फोन : 011-47192065, फैक्स: : 011-25815456 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्थ के लिए लेखापरीक्षित विसीय परिणाम (रु. लाख में) समाप्त निमानी विवरण

रोडवेज इंडिया लिमिटेड

Iddan	लमान्त ।तमाहा			समान्त वर्ष		
	31.03.2023 31.12.2022		31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
	लेखापरीवित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीधित	लेखापरीक्षित	लेखपरीक्षित	
प्रचालनों से कुल आय (निवल)	1705.33	1352.00	1254.02	5990.48	4707.14	
अवधि के लिए निवल लाम / (हानि) (कर, आपवादात्मक और अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	379.43	-14.35	-14.49	485.40	6.78	
कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाम/(हानि) (अपवादात्मक और अतिविशिष्ट मदों के बाद)	379.43	-14.35	-14.49	485.40	6.78	
कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	373.93	-16.45	-26.56	479.67	-2.73	
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पष्वात) और अन्य व्यापक आय (कर पष्वात) शामिल)		9.	3			
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10 / – प्रत्येक)	352.02	352.02	352.02	352.02	352.02	
पिछले लेखाकरण वर्ष के तुलनपत्र में दर्शाय गये अनुसार पुनमूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित		3.8		1787,10	1,307.43	
प्रति शेयर अर्जन (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल ख) बायल्युटिड	10.62 10.62	-0.05 -0.05	Y DAY DAY	13.63	-0.08	

उपरोक्त परिणाम सेवी (स्चीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवध्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही /वार्षिक वितीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.cse-india.com एवं www.msei.in और कम्पनी की वेबसाइट www.roadwaysindia.com पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई है और 29.05.2023 को आयोजित

निदेशक मंडल की बैठक में रिकार्ड में लिया गया है। कते रोडवेज इंडिया लिमिटेड

अमित गोयल

निदेशक

दिनांक : 29/05/2023

स्थान : नई दिल्ली

शाखाः इंदिरापुरम्, 12ए, अहिंसा खंड, जयपुरिया पंजाब एण्ड सिंध बैंक सनराइज ग्रीन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014 फोनः 0120-2650404, ई-मेलः i0883@psb.co.in जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येव है कब्जा सूचना / (अचल संपत्ति हेत्)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंघ बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कर्जदार 1. श्रीमती मंजू गिरी पत्नी श्री विनोद गिरी,** मकान नं. 21 पुराना और नया मकान नं. 180, राकेश मार्ग कॉलोनी, गांव नसरपुर, गाजियाबाद यू.पी. 201001, और: मकान नं. 120 पुराना और नया मकान नं. 179, राकेश मार्ग कॉलोनी, गांव नसरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. 201001 और श्री विनोद गिरी पुत्र श्री बाबू लाल गिरी, मकान नं. 21 पुराना और नया मकान नं. 180, राकेश मार्ग कॉलोनी, गांव नसरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. 201001, और मकान नं. 120 पुराना और नया मकान नं. 179, राकेश मार्ग कॉलोनी, गांव नसरपुर, गाजियाबाद यू.पी.—201001 और गारंटर श्री नवीन गिरी पुत्र श्री विनोद गिरी, मकान नं. 21 पुराना और नया मकान नं. 180, राकेश मार्ग कॉलोनी, गांव नसरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. 201001, और: मकान नं. 120 पुराना और नया मकान नं. 179, राकेश मार्ग कॉलोनी, गांव नसरपुर, गाजियाबाद, यू.पी. 201001 को मांग नोटिस दिनांक 01-03-2023 को जारी किया था, जिसमें सूचना में बकाया राशि रू. 12,00,916.74 (रु. बारह लाख नौ सौ सोलह और पैसे चौहत्तर मात्र) और दिनांक 31.01.2023 से भविष्य का ब्याज एवं आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित

उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता / गांरटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता / गांरटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 25.05.2023 को ले

उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन—देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **पंजाब एण्ड** सिंघ बैंक, शाखा इन्दिरपुरम के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 12,00,916.74 (रु. बारह लाख नौ सौ सोलह और पैसे चौहत्तर मात्र) और दिनांक 31.01.2023 से भविष्य का ब्याज एवं आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। वसूली घटाकर, यदि कोई हो।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति नं. 1: सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी मकान नं. 120, नया मकान नं. 179, राकेश मार्ग कॉलोनी, गाँव नसरपुर लोनी गाजियाबाद, यू.पी.— 201001 एसआर–1, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, मूल विक्रय विलेख पंजीकृत दस्तावेज सं. 1153, पुस्तक सं. 1, खंड सं. 6930, पृष्ठ 171 से 184, दिनांकित 23-02-2007 को पंजीकृत और संपत्ति सं. — 2: मकान नं. 21 पुराना और नया मकान नं. 180, राकेश मार्ग कॉलोनी, ग्राम नसरपुर, गाजियाबाद उ.प्र.—201001 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री विनोद गिरि पुत्र श्री बाबू लाल गिरि के नाम पर एसआर—।, गाजियाबाद, यू.पी. में विधिवत पंजीकृत, मूल विक्रय विलेख दस्तावेज सं. 587, पुस्तक सं. 1, खंड सं. 5893

1. संपत्ति चौहदी : मकान नं. 120 / नया नं. 179

पुरव में - महावीर की संपत्ति, पश्चिम में - शीला देवी की संपत्ति, उत्तर में - सडक, दक्षिण में - अन्य की संपत्ति

2. संपत्ति चौहदी : मकान नं. 21 / नया नं. 180

पुरब में - भगवान देवी की संपत्ति, पश्चिम में - विक्रेता की संपत्ति का हिस्सा, उत्तर में -सडक, दक्षिण में - अन्य संपत्ति

देनांक 25.05.2023, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शाखाः इंदिरापुरम, १२ए, अहिंसा खंड, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद- 201014 जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येष है फोन: 0120-2650404, ई-मेल: i0883@psb.co.in कब्जा सूचना / (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंघ बैंक**, का प्राधिकृत अधिकारी

होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह, निवासीः फ्लैट नं. यूजीएफ-1, एमआईजी प्लॉट नं. बी-18, गंगा विहार, सादुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद यू.पी.- 201102, और: निवासी: एफ-67 एस / एफ अंबेडकर भवन के पास, आराम बाग, पहाड़गंज, स्वामी राम तीर्थ नगर, एस.ओ. मध्य दिल्ली -110055 और गांरटर: 1. श्रीमती रेखा पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी: फ्लैट नं. यूजीएफ-1, एम.आई.जी. प्लॉट नं. बी-18, गंगा विहार, सदुलाबाद, लोनी, गाजियाबाद यू.पी. -201102 और 2. श्री निर्मल कुमार साहू पुत्र श्री बिरंची साहु, निवासीः फ्लैट नं. यूजीएफ-1, एम.आई.जी. प्लॉट नं. बी-18, गंगा विहार, सादुलाबाद, लोनी, गाजियाबाद यूपी. -201102 को मांग नोटिस दिनांक 01-03-2023 को जारी किया था, जिसमें सूचना में बकाया राशि रू. 17,38,704.22 (रु. सत्रह लाख अडतीस हजार सात सी चार और पैसे बाईस मात्र) और दिनांक 28.02.2023 से भविष्य का ब्याज एवं आकरिमक प्रभार इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता / गांरटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता / गांरटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 25.05.2023 को ले उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे

निम्न सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब एण्ड** सिंध बैंक, शाखा इन्दारपुरम के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 17,38,704.22 (रु. सत्रह लाख अड़तीस हजार सात सौ चार और पैसे बाईस मात्र) और दिनांक 28.02.2023 से भविष्य का ब्याज एवं आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। वसली घटाकर, यदि कोई हो। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. यूजीएफ–1, ऊपरी भूतल, बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं. बी-18, गंगा विहार लोनी, गाजियाबाद, यू.पी.-201102 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह के नाम पर सब रजिस्ट्रार-IV, गाजियाबाद, यू.पी. में पंजीकृत, मूल विक्रय विलेख पंजीकृत दस्तावेज सं. 5624, पुस्तक सं. 1, खंड सं. 35265, पृष्ठ 153 से 212, दिनांकित 16—03—2084 को पंजीकृत, चौहदी : पूरव में 60फीट चौडी रोड, पश्चिम में – सर्विस लेन, उत्तर में – प्लॉट नं. बी–19, दक्षिण में – अन्य का प्लॉट

देनांक 25.05.2023, स्थान : गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

CONCOR (भारत सरकार का न एनरमभाइती च स्वर्धीमेंग्री बिल्डिंग द	वरत्न उपक्रम) (A सरा तल ओखला ड	Navratna Undertaking of Govt. of India) ढ. एस्टेट (एनएसआईसी ओखास नेट्रो स्टेशन से सामने), नई दिल्ली-11		
नि	विदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से)		
		ध्यम में ऑनलाइन खुली ई-निविदा सह रिवर्स ऑक्शन आमंत्रित की जार		
निविदा संख्या	CON/Area-I/TC/Survey/MB-IOCL/2023			
कार्य का नाम	ICD/MB, SEZ location (मुरादाबाद), IOCL siding, पानीपत में कटेनरों / का सर्वेक्षण सेवाएं एवं ICD/MB में इनवेटरी प्रवंधन सेवाएं।			
अनुमानित लागत	क. 5,70,10,931/- (जीएसटी सहित) पांच (5) वर्षी हेतु।			
अनुबंध की अवधि	पांच (5) वर्ष	धरोहर जमा राशि" रु. 2,28,100/- ई-भुगतान के मध्यम र		
दस्तावेज की कीमत'	च. 1,000√- समें	करों व प्रभारों सहित ई—मुगतान के मध्यम से।		
निविदा प्रक्रिया शुल्क'	रु. 4,720/- सभी करों एवं प्रमार्चे सहित (अप्रतिदेय)।			
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	30.05.2023 को 15:00 बजे से 12.06.2023 (16:00 बजे तक)।			
पूर्व-बोली बैठक	06.06.2023 को 15:00 बजे।			
शुद्धि पत्र, यदि कोई होगा तो	09.06.2023 को या जससे पूर्व केवल <u>www.tenderwizard.com/CCIL</u> पर।			
		13.06.2023 को 15:00 बजे तक।		
निविदा खुलने की तिथि व समय				



कॉनकॉर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेत् टेण्डरिंग की एकल पैकेट प्रणाली में ई—निविदा आमंत्रित की जाती है— निविदा सं. CON/A-II/ADI Cluster/P.Wav-AMC/2023-25

अहमदाबाद-क्लस्टर, क्षेत्र-॥ के आईसीबी-खोबीयार (केएचबीबी), बीसीटी-खोबीयार (बीसीसीके), सीसीटी-अंकलेश्वर (एकेवी), आरसीटी-वढोदरा (बीआरसी), सीसीटी-गाँघीधाम (जीआईएमबी), एमएमएलपी वरनामा एवं एमएमएलपी दहेज स्थित रेलवे ट्रैकों की 02 वर्षों (अर्थात 24 माह) की अवधि हेतु मरम्मत एवं रख-रखाव। अनुमानित लागत रु. 259.02 लाख जीएसटी सहित

पूर्णता अवधि धरोहर जमा राशि रु. 2,79,510/- (ई-नुगतान के माध्यम से) निविदा दस्तावेज की कीमत निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय) रु. 4,720/- जीएसटी अतिरिक्त जैसा लागू हो (ई-मुगतान के माध्यम सं निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) 29.05.2023 (11:00 बजें) से 19.06.2023 (17:00 बजें तक) निविदा जमा करने की तिथि व समय | 20.06.2023 को 17:00 बजे तक निविदा खुलने की तिथि एवं समय 21.06.2023 को 15:30 बजे वित्तीय पात्रता मापदण्ड, समान प्रकृति के कार्य के संबंध में अनुभव, आदि हेतु कृपया वेबसाइट <u>www.concorindia.com</u> प

उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें परंतु पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट <mark>www.tenderwizard.com/CCIL.</mark> से उरउनलीड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस निविदा के बारे में शुद्धिपत्र / अनुशेष, यदि कोई होगा तो, केवल वेबसाइट www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL तथा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया कार्यकारी निदेशक / पी एंड एस / बेन्न-॥ जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। फोन नं. : 011-41222500

पंजाब नेश्ननल बैंक 🧶 punjab national bank

शेयर विभाग, बोर्ड और समन्वय प्रभाग प्लाट संख्या.4, द्वारका सेक्टर 10, नई दिल्ली-110075 ई-मेल आईडी : hosd@pnb.co.in Tel: 011-28044857 सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने/ गम /चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसके पंजीकत धारक / दावेदार ने डप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है:

शेयरों की विशिष्ट शेयरों की क्र. शेयरधारक का नाम प्रमाण-पत्र सख्या संख्या संख्या 0070729 004774 4009991-4010490 1. बद्री प्रसाद जोशी किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारक/दावेदार

के पक्ष में डप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सुचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र/ पृष्टिकरण पत्र जारी किए जाएंगे। सामान्य जन को उपर्यक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से सावधान किया जाता है। कृते पंजाब नैशनल बैंक

दिनांक : 29-05-2023 (एकता पसरीचा) स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव



श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि.

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 CIN: L29112DL1963PLC004084; PAN: AAACS0229G फोन : 011 23315941, फैक्स : 011 23311203 E-Mail: compliance.officer@shrirampistons.com, Website: www.shrirampistons.com

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 59वीं वार्षिक आम सभा (**59वीं एजीएम**) एजीएम नोटिस में जैसा कि यथा निर्धारित सामान्य व विशेष कार्य के संचालन हेत् मंगलवार 04 जुलाई, 2023 समय शायं 4:00 बजे (भामास) वीडियो कांन्फ्रेसिंग / अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम 2015 साथ में पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सं. 20/2020, दिनांक 05 मई, 2020, सं. 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021, सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, सं. 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 एवं अन्य सभी संबंधित परिपत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए परिपत्र) द्वारा जारी एवं परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 भारतीय प्रतिभृति एव विनिमय बोर्ड द्वारा जारी (सेबी परिपन्न) के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

कंपनी सदस्यों को 59वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (यानि एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग) द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

एमसीए और सेबी के परिपन्नों के संबंध में, 59वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के लिए केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएगी, जिनके ई—मेल आईडी कम्पनी / रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त परिपत्रों के तहत, एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोंट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त की दी गई है।

ई—मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका

शेयरधारक, जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी कम्पनी या रजिस्टार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ पंजीकृत नहीं की हैं, वे अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं। ई-मेल आईडी के अपडेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है।

क. भौतिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य आवश्यक विवरण प्रदान करके कंपनी के साथ अरथायी रूप से अपनी ई–मेल आईडी रजिस्टर कर सकते हैं अर्थात (ए) फोलियो नंबर (बी) शेयरधारक का नाम (सी) शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैन्ड प्रति (डी) पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति (ई) आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति, ई—मेल compliance.officer@shrirampistons.com पर भेज दें। इसके बाद, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे ईमेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के लिए कंपनी / आरटीए को भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर—1 (जो कि कंपनी की वेबसाइट https://shrirampistons.com/investors-guide-2/ पर उपलब्ध है)

ख. डिमेट फार्म में शेयर रखने वाले सदस्य उपलब्ध करायें (ए) डिमेट खाता संख्या (सीडीएसएल-16 अंकीय लाभार्थी आईडी या एनएडीएल-16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी) (बी) शेयरधारक का नाम (सी) क्लाइंट मास्टर की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति या समग्र खाते के विवरण की प्रति (डी) पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति (ई) आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन्ड प्रति, ई-मेल compliance.officer@shrirampistons.com पर भेज दें।

 म. कम्पनी सीडीएसएल के साथ समन्वय करेगी और उपर्युक्त शेयरधारकों को लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रदान करेगी।

एजीएम की सूचना व वार्षिक रिर्पोट इनवेस्टर दिशा—निर्देशों के तहत कंपनी की वेबसाइट www.shrirampistons.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध रहेगी। एजीएम सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सुविधा व रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट<mark></mark> अर्थात् www.evotingindia.com पर अंकित होगी।

शेयरधारक ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 8 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022—23 के लिए 5 / — रूपये प्रति इक्विटी शेयर के **"स्वर्ण जयंती"** अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। यह पहले से भूगतान किए जा चुके 10/— रूपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लामांश के अतिरिक्त है। लामांश, यदि आगामी एजीएम में शेयरघारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा, जो स्रोत पर कर कटौती के अधीन होगा। शेयरबारकों से अनुरोब है कि वे **"स्वर्ण जयंती"** अंतिम लाभांश या भविष्य के लाभांश को सीधे अपने बँक खाते में निम्नलिखित तरीके से प्राप्त करने के लिए पूर्ण बैंक विवरण के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक<mark></mark> क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) जनादेश को अपडेट /पंजीकृत करें :

 यदि शेयर डीमैट रूप में है. तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस. जिनके पास डीमैट खाता है. के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

ख. यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो फॉम आईएसआर—1 के साथ (i) शेयरधारक का नाम<mark>.</mark> फोलियो नंबर, बैंक विवरण (खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम, कोड आदि वाले हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की भौतिक प्रति जमा करें) (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (iii) और रद्द चैंक लिफ कंपनी / आरटीए के पते पर भेजें।

शेयरघारक ध्यान दें कि आयकर अघिनियम, 1961 (अघिनियम) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी. यदि एजीएम में अनुमोदित किया जाता है। उपयुक्त टीडीएस दर निर्धारित करने के लिए कंपनी को सक्षम करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने दस्तावेज जमा करें |

कृते श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि.

(पंकज गुप्ता)

स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव दिनांक : मई 29, 2023 सदस्य सं.: F-4647

तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001